

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिष्ठकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 1978/भाद्र 21, 1900
No. 425] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1978/BHADRA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1978

का. आ. 556(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2)
तारीख 31 मार्च, 1978 के पृष्ठ 423-424 के अन्तर्गत प्रकाशित क्र. आ. 224(अ) के
समसंख्यांक शुद्धिपत्र तारीख 31 मार्च, 1978 के साथ पीठत का. आ. 81(अ), तारीख
8 फरवरी, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य
विभाग) की अधिसूचना संख्या पी. 15011/34/76-पी. एच. (एफ. एण्ड एम.) 2 तारीख
8 फरवरी, 1978 के आंशिक उपान्तरण में केंद्रीय सरकार, डा. (श्रीमती) एस. एम. वाचा

को, 12 सितम्बर, 1978 से, केंद्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुना के निदेशक के सभी कृत्यों या किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त करती है।

[संख्या पी. 15011/39/76-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) (पी. एफ. ए.)]

महेश्वर नाथ बोहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1978

S.O. 556(E).—In partial modification of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) notification No. P. 15011/34/76-PH (F&N)-II dated the 8th February, 1978 published under S.O. No. 81(E) dated the 8th February, 1978 on pages 175-76, read with the corrigendum of even number dated the 31st March, 1978, published under S.O. 224(E) dated the 31st March, 1978, on pages 423-424 in Part II Section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India extraordinary, dated the 31st March, 1978, the Central Government hereby appoints Dr. (Mrs.) S. M. Vacha to perform, with effect from the 12th September, 1978 all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Pune.

[No. P. 15011/34/76-PH(F&N)(PFA)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.